



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

* (पत्रांक-186/2021 दिनांक 08.07.2021)*

दिनांक- 08.07.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित फरार चल रहा अभियुक्त अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सचिन्द्र पटेल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अयोध्या ए० पी० सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री पीयूषकान्त राय के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.07.2021 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों /वाहन की चेकिंग के दौरान प्रेमवलिया कट के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०-475/2021 धारा- 307 भादवि में वांछित फरार चल रहा अभियुक्त अतिक आलम पुत्र मो० शरीफ सा० महजिदिया टोला थाना टेकुआटार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को एक अदद नजायज कट्टा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है दिनांक 06.07.2021 को वाहन चेकिंग के समय रात्रि को पुलिस द्वारा मल्लूडीह में रोकने का प्रयास किया गया था जहाँ से अभियुक्तगण गिरफ्तारी के भय से भागने लगे थे भागते समय ग्राम फुलवापट्टी में बदमाश व पुलिस के बीच मुडभेड हुयी थी जिसमें अतिक आलम मौके से भाग गया था व उसका साथी खुर्शीद पुत्र वाजिद सा० जंगल हनुमानगंज सेमरिया टोला सबुनहा थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर गिरफ्तार किया गया था। बरामदगी गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 478/2021 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अतिक आलम पुत्र मो० शरीफ सा० महजिदिया टोला टेकुआटार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

बरामदगी का विवरण - एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० श्री अखिलेश कुमार सिंह थाना कसया कुशीनगर
2. उ०नि० श्री रवीन्द्र यादव थाना कसया कुशीनगर
3. का० विशाल यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
4. का० संदीप यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
5. का० कमलेश कुमार थाना कसया जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 32 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 453 वाहन।
2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु०-69,अभि०-207 ।
3. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)
- 4* .जनपद में कुल गिरफ्तारी - (कुल-33)*

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर